



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195]  
No. 195]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 1983/वैशाख 6, 1905  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1983/VAISAKHA 6, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वाणिज्य मंत्रालय  
(टैक्सटाइल विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1983

का० आ० 331(अ).-केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया)  
नियम, 1952 के नियम 3, 4 और 5 के साथ पटिन उद्योग (विकास  
और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को पटसन के  
विनिर्माण या उत्पादन में लगे हुए अनुसूचित उद्योग के लिए विकास परिषद्  
के, जो भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के  
आदेश सं० वा० आ० 829(अ), तारीख 1 अक्टूबर, 1980 द्वारा स्था-  
पित की गई थी, सदस्य, 31 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह  
तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए पुनः नियुक्त करती है :-

1. सचिव (टैक्सटाइल)  
टैक्सटाइल विभाग  
उद्योग भवन, नई दिल्ली
2. वित्त सलाहकार,  
वाणिज्य मंत्रालय,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली
3. वाणिज्य मंत्रालय, टैक्सटाइल विभाग  
उद्योग भवन, नई दिल्ली  
में पटसन मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

4 उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग  
विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली  
में पटसन मामलों से संबंधित संयुक्त सचिव

सदस्य

5. कृषि मंत्रालय, कृषि भवन,  
नई दिल्ली में पटसन क्षेत्री  
का भारमाध्यक संयुक्त सचिव

सदस्य

6 सलाहकार,  
(उद्योग और खनिज खण्ड),  
योजना आयोग, योजना भवन,  
नई दिल्ली

सदस्य

7. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,  
भारतीय पटसन निगम,  
1, शेक्मपियर सरनी, कलकत्ता

सदस्य

8. पटसन आयुक्त,  
20, अब्दुल हमीद स्ट्रीट,  
कलकत्ता

सदस्य

9 निदेशक,  
भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान संगम  
17, ताराटोला रोड,  
कलकत्ता

सदस्य

10. निदेशक,  
पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला  
12 रीजेंट पार्क, कलकत्ता

सदस्य

11. अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक वित्त निगम बैंक आफ बरौदा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	सदस्य	Industrial Development) No. S.O. 829 (E), dated the 1st October, 1980 for a period upto and inclusive of the 31st October, 1983 :—	
12. अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम, 19 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता	सदस्य	1. Secretary (Textiles) Department of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.	Chairman
13. श्री के० के० बाजोरिया, अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संगम, 6, रायल एक्सचेंज, कलकत्ता	सदस्य	2. Financial Adviser in the Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi.	
14. श्री एल० जी० तुलसीदास, अध्यक्ष, कलकत्ता जूट फैब्रिक्स शिपर्स एसोसियेशन, कलकत्ता	सदस्य	3. Joint Secretary dealing with jute in the Ministry of Commerce, Department of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.	Member
15. श्री जी० शिवरामन, उपाध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संगम, 6, रायल एक्सचेंज कलकत्ता	सदस्य	4. Joint Secretary dealing with jute machinery in the Ministry of Industry, Department of Heavy Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.	Member
16. श्री बी० गुप्त, कार्यपालक निदेशक, न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, 8, कामक स्ट्रीट, कलकत्ता	सदस्य	5. Joint Secretary in charge of Jute-cultivation, Ministry of Agriculture, Krishi Bhavan, New Delhi.	Member
17. श्री मनोज जैन, न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, 11, ब्लाइबरो, कलकत्ता	सदस्य	6. Adviser (Industry and Mineral Divn.), Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi.	Member
18. श्री काजी अब्दुल गफ्फार, 59-बी, पाम एवेन्यू, कलकत्ता	सदस्य	7. Chairman-cum-Managing Director, Jute Corporation of India, 1, Shakespeare Sarani, Calcutta.	Member
19. श्री शिशिर कुमार गांगुली, 23, जी० टी० रोड, बागी, हावड़ा	सदस्य	8. Jute Commissioner, 20, Abdul Hamid Street, Calcutta.	Member
20. श्री आफजलूर रहमान, विधान सभा सदस्य, डाकघर ज्वालेश्वर, जि० गोलपारी, पश्चिमी बंगाल	सदस्य	9. Director, Indian Jute Industries Research Association, 17, Taratola Road, Calcutta.	Member
2. केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 2 के खण्ड (ग) के अनुसरण में पटसन, आयुक्त, कलकत्ता को उक्त विभाग परिषद् के सदस्य के रूपों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है।		10. Director, Jute Technology Research Laboratory, 12, Regent Park, Calcutta.	Member
		11. Chairman, Indian Finance Corporation of India, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.	Member
		12. Chairman, Industrial Reconstruction Corporation of India, 19, Netaji Subhash Road, Calcutta.	Member
		13. Shri K.K. Bajoria, Chairman, Indian Jute Mills Association, 6, Royal Exchange, Calcutta.	Member
		14. Shri L.G. Tulsidas, Chairman, Calcutta Jute Fabrics Shippers Association, Calcutta.	Member
		15. Shri G. Sivaraman, Deputy Chairman, Indian Jute Mills Association, 6, Royal Exchange, Calcutta.	Member
		16. Shri D. Gupta, Executive Director, New Central Jute Mills, 8, Camac Street, Calcutta.	Member

[सं० 5/30/82-ई० पी० (टी० एण्ड जे०) III]  
डी० एन० कपूर, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

#### ORDER

New Delhi, 26th April, 1983

S.O. 331(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 3, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby reappoints the following persons to be Members of the Development Council for the scheduled industry engaged in the manufacture or production of jute established by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of

17. Shri Manoj Jain, New Central Jute Mills, 11, Clive Row, Calcutta.	Member	20. Shri Afazalur Rehman, M.L.A. P.O. Jwaleswar, Dist. Golepari, West Bengal.	Member
18. Shri Kazi Abdul Ghaffar, 59-B, Pam Avenue, Calcutta.	Member	In pursuance of clause (c) of rule 2 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the Jute Commissioner, Calcutta to carry on the functions of the Secretary to the said Development Council.	
19. Shri Sisir Kumar Ganguly, 26, G.T. Road, Bally, Howrah.	Member	[No. 5/30/82-EP (T & J) III] D. N. CAPOOR, Jt. Secy.	

